

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक- 28.8.2021**

**थाना कलान की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी**

**फाईनेन्स कम्पनी का कर्मचारी बताकर अवैध वसूली करते हुए 02 व्यक्ति गिरफ्तार ।**

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री मरसा सिंह, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत कलान पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 26.8.2021 को थाना कलान पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.सुनील पुत्र राजपाल सिंह यादव निवासी ग्राम सथरा धर्मपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर 2.पंकज श्रीवास्तव पुत्र बलवीर श्रीवास्तव निवासी ग्राम पिलुआ थाना कलान जिला शाहजहाँपुर को अपने आप को फाईनेन्स कम्पनी का कर्मचारी बताकर अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा इनके दो साथी पिकू यादव पुत्र नामालूम निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर व मोनू उर्फ मानवेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम गुन्दौरा दाऊदपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर मौके से भागने में सफल रहे । उपरोक्त सन्दर्भ में वादी श्री रासिद पुत्र श्री महबूब निवासी ग्राम पिटलोकर थाना सरधना जिला मेरठ ने थाना हाजा पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 26.8.2021 को समय करीब दिन के 03.00 बजे वह अपना गाडी सं0 UP 15 FT 0324 को लेकर पानीपत से बिहार जा रहा था कि उसी समय तभी कस्बा कलान में मेरी गाडी के समाने एक सफेद बोलेरो गाडी रजि0नं0 UP 27 BA 1834 आकर लगी और उपरोक्त बोलेरो में से दो व्यक्ति सुनील व पंकज श्रीवास्तव उपरोक्त उतर कर आये और मेरी गाडी को रुकवा कर रहने लगे कि हम फाईनेन्स कम्पनी के कर्मी हैं आपकी गाडी पर फाईनेन्स का पैसा शेष है जब मैंने अपने मालिक से फोन पर बात की तो मेरे मालिक ने कहा कि हमारे ऊपर किसी का पैसा नहीं है और किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है तब मैंने उक्त दोनों लोगों से पैसा देने को मना किया तो ये लोग जबरदस्ती मुझसे 30 हजार रुपये रंगदारी मांगने लगे । शोर शराबा होने पर थाने की पुलिस मौके पर आ गयी तो इनके दो साथी गाडी को छोडकर भाग गये । उक्त के सम्बन्ध में वादी की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 448/21 धारा 384 भादवि पंजीकृत कर बोलेरो गाडी रजि0नं0 UP 27 BA 1834 को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया है । विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दविशें दी जा रही हैं ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1.सुनील पुत्र राजपाल सिंह यादव निवासी ग्राम सथरा धर्मपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर
- 2.पंकज श्रीवास्तव पुत्र बलवीर श्रीवास्तव निवासी ग्राम पिलुआ थाना कलान जिला शाहजहाँपुर

**\*वांछित अभियुक्तगण-\***

- 1.पिकू यादव पुत्र नामालूम निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर
- 2.मोनू उर्फ मानवेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम गुन्दौरा दाऊदपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर

**\*अपराधिक इतिहास-\***

- 1.मु0अ0सं0 448/21 धारा 380 भादवि थाना कलान ( विरुद्ध सभी )
- 2.मु0अ0सं0 552/20 धारा 420/467/468/471/272/273 भादवि थाना कलान ( बनाम सुनील व मोनू उर्फ मानवेन्द्र )
- 3.मु0अ0सं0 557/20 धारा 60(क) आबकारी अधि0 थाना कलान ( बनाम सुनील व मोनू उर्फ मानवेन्द्र )
- 4.मु0अ0सं0 553/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 ( बनाम सुनील )

**\*पुलिस टीम का विवरण-\***

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कलान
- 2- उ0नि0 श्री गौरव कुमार त्यागी थाना कलान
- 3- एचसी 363 इम्तियाज हसन थाना कलान
- 4- कां0 1339 सुनील कुमार थाना कलान